

Public Importance

My own information is that their morale is pretty good.

Shri Hem Barua: There has been not a single casualty....

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: Those who were not signatories cannot have the opportunity.

Shri Hem Barua: There has not been a single casualty so far as Pakistan side is concerned. Is it not a fact that this is due to the fact that the Pakistan Government, Pakistan is have evacuated the population, I mean, from the border before resorting to firing against us? If so, may I know whether we have also instructed the Assam Government to evacuate all the population from the border and keep the area safe for firing operations?

Shri Jawaharlal Nehru: I do not know that the Pakistan Government has evacuated its population from that border. Sometimes they have. I do not know.

Mr. Speaker: It was in some press.

Shri Jawaharlal Nehru: May be. I would personally not advise the Assam Government to evacuate our people. That is one of the particular things which decrease the morale and frightens people—some measures of that type.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I make a request? Would you kindly direct the Government, the Prime Minister, to make a statement, during the next three or four days of the session, on the border situation every morning?

Mr. Speaker: On the last day, he will make that statement.

12.54 hrs.

RE. INCORRECT REPORTING OF
PROCEEDINGS BY A NEWSPAPER

Mr. Speaker: Shri Ram Sewak Yadav has written to me this. He might take one minute.

1256 (Ai) LSD.—5

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :

अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय : आज को देर है, मैं कहे देता हूँ। श्री रामसेवक यादव ने मुझे यह लिखा था कि जब डा० राम मनोहर लोहिया ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वे हिन्दी में जवाब दें तो उस की रिपोर्ट जो “इंडियन एक्सप्रेस” अखबार में निकली उसमें यह कहा गया कि डा० राम मनोहर लोहिया ने यह कहा कि वे हिन्दी के सिवाय और किसी जवान में न बोलें और सिर्फ हिन्दी में ही वह जवाब दें, यह ठीक है न ?

श्री रामसेवक यादव : उन्होंने मातृभाषा में जवाब देने के लिए कहा था। डा० राम मनोहर लोहिया ने मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया था, शब्द “हिन्दी” का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन जो “इंडियन एक्सप्रेस” में खबर निकली उसमें यह कहा गया कि उन्होंने कहा था कि वह हिन्दी के सिवाय और किसी जवान में जवाब न दें। इस शिकायत के आने पर कि अखबार ने मातृभाषा के शब्द के स्थान पर हिन्दी लिख दिया है जब कि डा० साहब ने मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया था, इंडियन एक्सप्रेस को लिखा गया। उन्होंने जवाब दिया कि हम आमतौर पर डिस्पैशनेट रिपोर्टिंग करते हैं और मातृभाषा शब्द के बजाय जो हिन्दी शब्द लिख दिया गया और इस तरह जो गलती हो गयी उसको हम रिप्रेट करते हैं। मैंने इसको काफी समझा और इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसेवक यादव : एक निवेदन करना चाहता था

अध्यक्ष महोदय : अब क्या बाकी रहता है ? उन्होंने रिप्रेट जाहिर कर तो दिया है।

श्री रामसेवक यादव : यह तो ठीक है और मैं अपनी शिकायत वापिस लेता हूँ।

[श्री रामसेवक यादव]

निवेदन सिर्फ यह है कि इस चीज को सिर्फ इसलिए रखा गया कि इसका प्रचार आमतौर से होता है, हमारे साथी के खिलाफ भी और हम अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कि हम लोग हिन्दी को लादना चाहते हैं और यदि उसका जवाब न दिया जाये तो उसका बुरा असर भारत पर और खासतौर पर दक्षिण वालों पर पड़ता है कि हम जबरदस्ती हिन्दी लादना चाहते हैं और हमारे मित्र डी० एम० के० के लोगों पर इस तरह के गलत प्रचार का गलत असर पड़ता है, इसलिए मैंने यह चीज साफ करनी चाही थी कि उन्होंने हिन्दी नहीं अपितु मातृभाषा में उनसे बोलने का आग्रह किया था और उनके उस अनुरोध का माननीय सदस्यों पर असर भी अच्छा पड़ा था। और उन्होंने इसके लिए तालियां भी बजाई थीं लेकिन उसकी रिपोर्ट अखबार में गलत छपी और अगर उसका निराकरण न किया जाता तो उसका असर गलत पड़ता। अब चूँकि संबंधित अखबार ने माफी मांग ली है इसलिए मैं अपने सवाल को वापिस लेता हूँ।

Mr. Speaker: Papers laid on the Table. Mr. Alagesan.

The Minister of Mines and Fuel (Shri Alagesan): Sir, I beg to lay...

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखागढ़):
अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रधान मंत्री को कोई हक नहीं है कि वे यहाँ अंग्रेजी में बोलें। मैं कभी नहीं कहता कि वह और कुछ न बोलें, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी बोलें लेकिन अंग्रेजी न बोलें।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाइये।

Mr. Speaker: Papers laid on the Table. Mr. Alagesan.

Shri Karni Singhji (Bikaner):
Could we put some questions on yesterday's statement?

Mr. Speaker: I have just said that at 5 O'clock I will allow the Members to put questions on the statement that was made by the Minister of Irrigation and Power.

15.56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

COAL BEARING AREAS AMENDMENT RULES AND NOTIFICATION UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT

The Minister of Mines and Fuel (Shri Alagesan): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Rules, 1963 published in Notification No. S.O. 2569 dated the 7th September, 1963, under sub-section (3) of section 27 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-1737/63].
- (ii) Notification No. G.S.R. 1451 dated the 7th September, 1963 under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, making certain amendments in the Second Schedule to the said Act. [Placed in Library, See No. LT-1748/63].

ARMS RULES AND FIFTH REPORT OF THE COMMISSIONER OF LINGUISTIC MINORITIES

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): On behalf of Shri Hajarnavis, I beg to lay on the Table a copy each of the following paper:—

- (i) The Arms (Fourth Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1377 dated the 24th August, 1963, under sub-section (3) of section 44 of the Arms Act, 1959. [Placed in Library. See No. LT-1739/63.]
- (ii) Fifth Report of the Commissioner of Linguistic Minorities for the period 1st January to 31st December, 1962, under